

[This question paper contains 2 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 7052

J

Unique Paper Code : 2272203602

Name of the Paper : Intermediate Macroeconomics-II Policy issues

Name of the Course : **B.A. (Prog.) in Economics**

Semester : VI

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Answer **five** questions. **All** questions carry equal marks.
3. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए ।
2. किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए । सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।
3. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए ।

1. Comment on each of the following statements : (9,9)
 - (a) "Under Ricardian equivalence, government spending has no effect on output".
 - (b) "Under Ricardian equivalence, changes in taxes have no effect on output."
2. (a) Discuss the role of Monetary Policy & Monetary Rule to control inflation under medium-run equilibrium?
(b) How the Monetary Rule (MR) relates to the LM curve? Discuss. (9,9)
3. (a) Explain the factors which contributed to the Global Financial Crisis of 2008.
(b) Explain the role of Monetary & Fiscal Policy to overcome this crisis. (9,9)
4. (a) Distinguish between fixed & flexible exchange rate system. Which system is known as Clear and Dirty. Explain? (10)
(b) What is beggar-thy-neighbor policy. Discuss. (8)

P.T.O.

5. Assuming perfect capital mobility and fixed exchange rate, explain the impact of monetary policy and fiscal policy respectively on the economy. (9,9)
6. Explain the effectiveness of fiscal policy and monetary policy respectively under the condition of perfect capital mobility and flexible exchange rate. (9,9)
7. Write a short note on **any two** of the following : (9,9)
 - (i) Purchasing Power Parity Theory
 - (ii) J-Curve
 - (iii) Interest arbitrage

1. निम्नलिखित प्रत्येक कथन पर टिप्पणी कीजिए : (9,9)
 - (क) “रिकार्डियन समतुल्यता के तहत, सरकारी खर्च का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है”।
 - (ख) “रिकार्डियन समतुल्यता के तहत, करों में परिवर्तन का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है”।
2. (क) मध्यम अवधि के संतुलन के तहत मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति और मौद्रिक नियम की भूमिका पर चर्चा कीजिए?
- (ख) मौद्रिक नियम (एमआर) एलएम वक्र से कैसे संबंधित है? चर्चा कीजिए। (9,9)
3. (क) 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट में योगदान देने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए।
- (ख) इस संकट से उबरने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीति की भूमिका की व्याख्या कीजिए। (9,9)
4. (क) निश्चित और लचीली विनिमय दर प्रणाली के बीच अंतर कीजिए। किस प्रणाली को साफ और गंदी प्रणाली के रूप में जाना जाता है। व्याख्या कीजिए? (10)
- (ख) बेगर-दाय नेबर नीति क्या है। चर्चा कीजिए। (8)
5. पूर्ण पूंजी गतिशीलता और स्थिर विनिमय दर मानते हुए, अर्थव्यवस्था पर क्रमशः मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। (9,9)
6. पूर्ण पूंजी गतिशीलता और लचीली विनिमय दर की स्थिति में क्रमशः राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता की व्याख्या कीजिए। (9,9)
7. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : (9,9)
 - (i) क्रय शक्ति समता सिद्धांत
 - (ii) जे-वक्र
 - (iii) ब्याज आर्बिटेज